

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

\*\*\*\*\*

INDEX  
IN  
3<sup>rd</sup> SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT  
IN  
Civil Misc. Writ Petition No.6049 of 2020  
(Under Article 226 of the Constitution of India)  
(District: Gautam Buddh Nagar)

M/s JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD.

...Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh and another.

...Respondents

Sl. No.	Particulars	Dates	Ann.	Page no.
1	3 <sup>rd</sup> Supplementary Affidavit alongwith Id proof.			1-10A
2	A copy of the map where the proposed land being offered for resumption has been clearly marked in yellow.		1	11-13
3	A copy of the prevailing allotment rates as notified by YEIDA.	02.05.2022	2	14-17

R  
11.10.22

(Rohan Gupta)  
Advocate  
Advt. Roll: A/R1316/12  
82, Lawyers' Chambers,  
High Court, Allahabad  
Counsel for Petitioner  
Mob. No. 9453010672

Dates: September, 30, 2022

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**

\*\*\*\*\*

**3<sup>rd</sup> SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT**

**IN**

**Civil Misc. Writ Petition No.6049 of 2020**

(Under Article 226 of the Constitution of India)

**(District: Gautam Buddh Nagar)**

**M/s JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD.**, being a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 having its registered office at Sector 128, Noida-201304 Uttar Pradesh through its Authorized Signatory Mr. Manmohan Sibbal.

**...PETITIONER**

Versus

1. **STATE OF UTTAR PRADESH**, through Principal Secretary, Department of Industrial Development at UP Civil Secretariat

**...RESPONDENT NO.1**

2. **YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY**, through its Chief Executive Officer, at First Floor, Commercial Complex, P-2, Sector-Omega 1, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201308

**...RESPONDENT NO.2**

Affidavit of Sri Krishna Kant Sharma, aged about 49 years, son of Late Sri Hira Lal Sharma, Occupation: Private Service, Religion: Hindu, Authorised

Representative, M/s Jai Prakash Associates Limited, Registered & Corporate Office at Sector - 128, Noida - 201304, Gautam Budh Nagar. Aadhar No. 360301058050, Mob. No. 9958757549

(Deponent)

I, the Deponent named above, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is the authorized signatory and presently posted as Resident Manager of the Petitioner Company to present and file this Supplementary Affidavit for and on behalf of the Petitioner in the Writ Petition abovenamed, and as such, he is fully acquainted with the facts deposed to below.
2. That the instant Supplementary Affidavit is being filed in compliance of the order dated 29.09.2022, passed by this Hon'ble Court, in terms of which the Petitioner was directed to bring on record the Settlement proposal presented during the course of the hearing, for the settlement of the entire premium and interest pertaining to the land in issue and for completion of housing projects.
3. That in this regard it is pertinent to note that the Petitioner has complied with all stipulations vis-à-vis core area

development, as well as the payment of the installments of premium, since allotment in year 2009, except when headwinds of economy swept the country since 2016-17 and subsequently the COVID. It is also important to note here that the situation was taken note of by the Board of YEIDA, itself and accordingly, the payment mechanism was modified, by entering into an ESCROW Agreement with the Petitioner, which was being duly complied with without any default.

4. That the Petitioner has even otherwise paid over 2400 crores towards land premium and even during the pendency of the instant petition, made a payment of Rs. 107.50 crores. In this regard it may be noted that this Hon'ble Court had directed the Petitioner vide order dated 25.02.2020, to deposit Rs. 100 crores in two tranches of Rs. 50 crores each. The Petitioner duly deposited the first tranche of Rs. 50 crores in the period between 03.03.2020 and 16.03.2020, while it could not deposit the balance 45 crores on account of the lockdown due to the pandemic. Accordingly, the Petitioner moved an application for extension of time which was allowed vide order dated 08.02.2021, passed by this Hon'ble Court, and accordingly deposited the balance amount of Rs. 45 crores, with interest of Rs. 7.5 crores, amounting to 52.50 crores, on

12.02.2021. It may be noted that the payments have been made despite the order of *status quo* on the land, which is depriving the petitioner from developing the land in question or deriving any benefit therefrom and therefore clearly establishes the *bona fides* of the petitioner beyond any shadow of doubt.

5. That Iconic Formula-1 track, located at SDZ is a shining example of how the State of U.P. placed faith in the Petitioner and the Petitioner delivered the promise & invested over Rs 2200 Crores in development of the same.
6. JAL as submitted on various occasions that **Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA)** should confirm waiver of penal interest amounting to **Rs 46.65 Crores.**
7. The total outstanding of JAL of the SDZ land towards YEIDA is Rs. 889.67 crores as on 31.03.2022 which includes interest at the rate as mentioned in the Allotment conditions and excludes the penal interest of Rs. 46.65 crores. JAL proposes to give 78.4 acres back to YEIDA out of the total land at the prevailing allotment rate as notified by YEIDA on dt.2.5.2022 in the following manner:

1) Housing land: 61.80 acres @ Rs 9.40 Cr per Acre (Rs 23140/- per sq mtr as per YEIDA office order dt. 02.05.2022) = Rs. 580.91 Cr

2) Commercial/shopping: 16.6 acres @ Rs 18.6 Cr per Acre (Rs 46000/- per sq. mtr as per YEIDA office order dt. 02.05.2022) = Rs 308.76 Cr

Total = Rs 889.67 Cr

A copy of the map where the proposed land being offered for resumption has been clearly marked in yellow is being attached hereto and marked as **Annexure SA1**.

A copy of the prevailing allotment rates as notified by YEIDA on 02.05.2022 is being annexed hereto and marked as **Annexure SA2**.

8. That as regards to the completion of housing projects launched on the said land by the Petitioner, the Petitioner proposes to initially invest Rs. 100 crores in installments of Rs. 25 crores each, every quarter. Further money will be invested as the construction progresses. However, it is respectfully submitted that for starting the construction it is imperative that following clearance/approvals are granted:
  - i) Clearance of the entire land of Sports City, SDZ from YEIDA
  - ii) Approval of building plans from YEIDA
  - iii) Clearance from and approvals from UP RERA
9. That the Petitioner undertakes to complete the 7 real estate group housing projects launched by it in the manner indicated in the table below:

Sr. No.	Name of Project	Type	No. of Towers	Solid Units to be delivered	Time for Completion Months
1	2	3	4	5	6
1	Kassia I	Residential Group Housing	23	49	12
2	Kassia II & III a) Phase-1	Residential Group Housing	29	287	18
	b) Phase-2	Residential Group Housing	13	131	20
	c) Phase-3	Residential Group Housing	29	304	22
3	Kove a) Phase - 1	Residential Group Housing	5	210	30
	b) Phase-2	Residential Group Housing	2	160	32
	c) Phase-3	Residential Group Housing	3	355	33
4	Buddh Circuit Studies -I	Residential Group Housing	4	844	33
5	Villa Greencrest Homes	Residential -Plots	NA	28	9
6	Villa Country Homes - II	Residential -Plots	NA	13	9
7	Sportsvilla	Residential -Plots	NA	55	12
	Total for JAL Sports City SDZ ('1' to '7')		108	2436	

10. That the Petitioner reiterates and assures this Hon'ble Court that it has the capability to deliver the residential projects as indicated in the above table. That to allay any

apprehensions of the homebuyers regarding availability of funds it is submitted that the Petitioner expects a sizable portion of Rs. 750 Crores deposited with NCLT on the directions of the Hon'ble Supreme Court released to it and part of the said released funds will be available to the Petitioner for construction of homes. It is submitted that the hearing on the reconciliation of accounts, as per the directions of the Hon'ble Supreme Court, has already been completed and the order of NCLT, Principal Bench on the said issue is expected soon. Apart from the above, once the construction starts or on the delivery (as per the agreements with the homebuyers) certain funds will also be available from the payments to be made by the homebuyers.

11. That Petitioner is in touch with the Bankers who are supportive of petitioner's claims. Further moving forward, petitioner is hopeful of getting support from them.
12. That Petitioner has demonstrated its ability to complete pending works with respect to the homes at Wish Town, Noida. Petitioner has completed as Developer (under superintendence of RERA), nearly 800 homes in last 21 months while completing more than 8000 homes as contractor (under superintendence of IRP of Jaypee

Infratech Ltd. [JIL]) in the last five years. In addition to this, petitioner with its capability is hopeful of completing atleast 4000 homes more by March 2023 for home buyers of JIL.

13. That the Petitioner most respectfully submits that the above offer with regard to payment plan and the construction plan is beneficial and in the interest of all the stakeholders and will result in complete resolution of the disputes between the parties.
14. That Petitioner's lease is perpetual lease and is governed by its own terms.
15. That the Petitioner has always shown its bonafides to resolve all the issues amicably and has earlier deposited Rs. 107.50 Crores with the Respondent No. 2 as per the directions of this Hon'ble Court, deposited Rs. 750 Crores before the Hon'ble Supreme Court. The Petitioner is committed to further deposit Rs. 100 Crores with the Respondent No. 2 as per the directions of this Hon'ble Court vide order dated 29.09.2022. It is submitted that the Respondent No. 2 and the homebuyers may consider the proposal of the Petitioner keeping in view the bonafides of

the Petitioner and its endeavour to revive and complete the Project.

16. That therefore it is submitted the instant affidavit may kindly be taken on record and made a part of the pleadings in the above noted writ petition.

I, the deponent above named, do hereby solemnly affirm and swear on oath that the contents of paragraph nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7(P), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, of this affidavit are true to my personal knowledge; those contents of paragraph nos. 7(P) of this affidavit are based on perusal of records; those contents of paragraph no..... of this affidavit are based on information received and those contents of paragraph nos. 16 of this affidavit are based on legal advice; which all I believe to be true that no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed herein. So Help Me God.

DEPONENT

I, Kamta Prasad Mishra, Clerk to Sri Rohan Gupta, Advocate, High Court, Allahabad do hereby declare that the person making and swearing this Affidavit is known to

me from perusal of papers which he has produced in this case before me.









K.P. Mishra  
Clerk

Reg.No.K-10/2012

Solemnly affirmed before me on this 30 day of September  
2022 at 09:05 Am by the Deponent who has been identified  
by the aforesaid Clerk.

I have satisfied myself by examining the Deponent that he understands the contents of this Affidavit which has been read over and explained to him.

OATH COMMISSIONER

 	 
<p>भारत सरकार Government of India</p>	<p>भारत सरकार Government of India</p>
<p>भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण Unique Identification Authority of India</p>	<p>सूचना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।</li> <li>■ सुरक्षित QR कोड / ऑफलाइन XML / ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से पहचान प्रमाणित करें।</li> <li>■ यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।</li> </ul>
<p>नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 0000/00492/99041</p> <p>To श.क. शर्मा Krishna Kant Sharma 214-gangotri Anand Ashray Phi-2 Greater Noida Near Jal Vayu Vihar Kasana Gautam Buddha Nagar Uttar Pradesh - 201310 9958757549</p> <p>Download Date: 19/05/2020</p> <p>Issue Date: 22/02/2018</p> <p>Signature Not Verified</p> 	<p>INFORMATION</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.</li> <li>■ Verify identity using Secure QR Code/ Offline XML/ Online Authentication.</li> <li>■ This is electronically generated letter.</li> </ul>
<p>आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. : 3603 0105 8050 VID : 9134 9113 8232 2361</p> <p>मेरा आधार, मेरी पहचान</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आधार देश भर में मान्य है।</li> <li>■ आधार कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को पाना आसान बनाता है।</li> <li>■ आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट रखें।</li> <li>■ आधार को अपने स्मार्ट फोन पर रखें, mAadhaar App के साथ।</li> <li>■ Aadhaar is valid throughout the country.</li> <li>■ Aadhaar helps you avail various Government and non-Government services easily.</li> <li>■ Keep your mobile number &amp; email ID updated in Aadhaar.</li> <li>■ Carry Aadhaar in your smart phone – use mAadhaar App.</li> </ul>
<p>भारत सरकार Government of India</p>  <p>कृष्ण कान्त शर्मा Krishna Kant Sharma जन्म तिथि/DOB: 01/01/1973 पुरुष/ MALE</p> <p>Issued Date: 19/05/2020</p> <p>Issue Date: 22/02/2018</p> <p>3603 0105 8050 VID : 9134 9113 8232 2361</p> <p>मेरा आधार, मेरी पहचान</p>	<p>भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण Unique Identification Authority of India</p>  <p>पता: 214-गंगोत्री, आनंद आश्रय, जल वायु बिहार के पास, फ़ी-2 ग्रेटर नोएडा, कासना, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201310</p> <p>Address: 214-gangotri, Anand Ashray, Near Jal Vayu Vihar, Phi-2 Greater Noida, Kasana, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201310</p>  <p>3603 0105 8050 VID : 9134 9113 8232 2361</p>
<p>1947   help@uidai.gov.in   www.uidai.gov.in</p>	<p>1947   help@uidai.gov.in   www.uidai.gov.in</p>

11  
**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**

\*\*\*\*\*

**ANNEXURE SA-1**

**IN**

**3<sup>rd</sup> SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT**

**IN**

**Civil Misc. Writ Petition No.6049 of 2020**

(Under Article 226 of the Constitution of India)

**(District: Gautam Buddh Nagar)**


M/s JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD.

...Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh and another.

...Respondents



**LEGEND:**


TOTAL SITE BOUNDARY (117.4 HECTARE)	
CORE AREA - 38.37% - 551.52 HA.	
ROADS & OTHER CIRCULATION 3.7% - 55.02 HA.	
OPEN & GREEN 1.7% - 25.67 HA.	
OTHER ACTIVITY	
RESIDENTIAL (R)	31.3% - 513.17 HA.
COMMERCIAL (C)	13.3% - 223.71 HA.
INSTITUTIONAL	10.9% - 163.0 HA.
EDUCATIONAL FACILITY	0.7% - 11.04 HA.
COMPANY FACILITY	0.1% - 1.62 HA.
HEALTH FACILITY	0.1% - 1.62 HA.
UTILITY	0.1% - 1.62 HA.
RECREATIONAL GREEN (GR)	7.7% - 115.13 HA.
ROADS & TRANSPORTATION	3.0% - 45.03 HA.
LAND NOT LEASD	
NON-TRANSFERABLE LAND	

HOUSING - 61.8 ACRES  
 SHOPPING - 16.6 ACRES

Approved by  
 JAYPEE SPORTS INTERNATIONAL LTD.  
 Date: 11/01/2022  
 For: Jaypee Greens Sports City  
 Sector 128, Noida

**DRAWING TITLE:**  
**LAYOUT PLAN OF SDZ**  
**PROJECT:**  
 JAYPEE GREENS SPORTS CITY  
 SDZ SEC-26 YEIDA AREA  
**FOR PLANNER'S SIGNATURE:**  
**PROJECT'S SIGNATURE:**  
**OWNER'S SIGNATURE:**

JAYPEE SPORTS INTERNATIONAL LTD.  
 SECTOR 128, NOIDA  
 Scale: 1:1000  
 Date: 11/01/2022  
 Prepared by: MANA DORA  
 Checked by:



**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**

\*\*\*\*\*

**ANNEXURE SA-2**

**IN**

**3<sup>rd</sup> SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT**

**IN**

**Civil Misc. Writ Petition No.6049 of 2020**

(Under Article 226 of the Constitution of India)

**(District: Gautam Buddh Nagar)**

M/s JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD.

...Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh and another.

...Respondents



# यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पी-2, सेक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा।

पत्रांक: याई.ई.ए/वित्त/152/2022  
दिनांक 02-05-2022

## कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26.04.2022 के मद संख्या 73/25 में लिये गये निर्णय के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विभिन्न परिसम्पत्तियों के आवंटन/बिड दरों का निर्धारण निम्नवत् किया गया है :-

क्र० सं०	श्रेणी	(रूपये प्रति वर्ग मी० में)	वर्ष 2022-23 हेतु आवंटन/नीलामी दर
1.	आवासीय	200 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों हेतु। 200 वर्ग मीटर से अधिक भूखण्डों हेतु।	18510
2.	व्यवसायिक	सेक्टर प्लान व्यवसायिक (FAR upto 2)	38000
		मास्टर प्लान व्यवसायिक (FAR more than 2)	46000
3.	गुप्त हाउसिंग		23140
4.	संस्थागत		
क.	सीनियर सेकंडरी स्कूल, इण्टर कॉलेज, डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स, इंजीनियरिंग मेडिकल कालेज, कालेज, डेन्टल कालेज, यूनिवर्सिटी, नर्सरी स्कूल, स्पोर्ट्स कॉलेज/स्पोर्ट्स ऐकडमी आदि		
	- 4,000 वर्ग मी० तक		10450
	- 4,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक		9430
	- 8,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक		8420
	- 20,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक		7390
	- 40,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक		6390
	- 80,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त		5510
ख.	सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर		
	I) विद्युत सब स्टेशन, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि के सरकारी कार्यालय		8070
	II) मिल्क बूथ आदि (पराग/मदर डेयरी)		8070
	III) धार्मिक स्थल/ अनाथालय/विधवा आश्रम/वृद्धाश्रम		6900
	IV) अस्पताल		15450
ग.	कॉरपोरेट आफिस		16970
5.	आई०टी० एण्ड आई०टी०ई०एस०	- 4,000 वर्ग मी० तक	11630
		- 4,001 से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक	10500
		- 8,001 से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक	9370
		- 20,001 से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक	8240
		- 40,001 से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक	7100
		- 80,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त	6140
6.	औद्योगिक		
	- 4,000 वर्ग मी० तक		9668
	- 4,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक		8230

6/ 02/05/2022

	- 8,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक	6980
	- 20,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक	6330
	- 40,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक	6110
	- 80,001 वर्ग मी० से अधिक	5880
7.	वेयर हाउसिंग, लाजिस्टिक पार्क/फ्रेट कॉम्प्लेक्स :-	औद्योगिक दरों के समान।
8.	रिक्रीशनल ग्रीन्स, गोल्फ कौर्स/रेस कौर्स	
	- 4,000 वर्ग मी० तक	8240
	- 4,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त 8,000 वर्ग मी० तक	7430
	- 8,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त 20,000 वर्ग मी० तक	6510
	- 20,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त 40,000 वर्ग मी० तक	6040
	- 40,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त 80,000 वर्ग मी० तक	5660
	- 80,001 वर्ग मी० से अतिरिक्त	5200
9. (अ)	मिक्स लैंड यूज	

**Rates only for core activity without support activity are as follow :-  
Industry as Core Activity without Support Activity**

40,000 to 59,999 Sq. Mtr.	7070
60,000 to 79,999 Sq. Mtr.	6750
80,000 to 99,999 Sq. Mtr	6600
1,00,000 to 1,19,999 Sq. Mtr	6450
1,20,000 to 1,39,999 Sq. Mtr	6370
1,40,000 to 1,59,999 Sq. Mtr	6300
1,60,000 to 1,79,999 Sq. Mtr	6240
1,80,000 to 1,99,999 Sq. Mtr	6200
Above 2,00,000 Sq. Mtr	6170
9. (ब)	मिक्स लैंड यूज

**Core activity with support activity (FAR Upto 2 for Commercial Activity)**

Size of Plot	Industry (Rate Per Sq. Mtr)	Institution (Rate Per Sq. Mtr)	Recreational (Rate Per Sq. Mtr)
40,000 to 59,999 Sq. Mtr	13260	14730	12970
60,000 to 79,999 Sq. Mtr	13000	14330	12780
80,000 to 99,999 Sq. Mtr	12850	14010	12640
1,00,000 to 119,999 Sq. Mtr	12740	13790	12540
1,20,000 to 1,39,999 Sq. Mtr	12640	13570	12450
1,40,000 to 159,999 Sq. Mtr	12570	13390	12350
1,60,000 to 179,999 Sq. Mtr	12510	13240	12280
1,80,000 to 1,99,999 Sq. Mtr	12470	13130	12220
Above 200,000 Sq. Mtr	12430	13030	12170


**Core activity with support activity (FAR more than 2 for Commercial Activity)**

Size of Plot	Industry (Rate Per Sq. Mtr)	Institution (Rate Per Sq. Mtr)	Recreational (Rate Per Sq. Mtr)
40,000 to 59,999 Sq. Mtr	14140	15610	13850
60,000 to 79,999 Sq. Mtr	13880	15210	13660


2/5/2022

80,000 to 99,999 Sq. Mtr	13730	14890	13520
1,00,000 to 119,999 Sq. Mtr	13620	14670	13420
1,20,000 to 1,39,999 Sq. Mtr	13520	14450	13330
1,40,000 to 159,999 Sq. Mtr	13450	14270	13230
1,60,000 to 179,999 Sq. Mtr	13400	14120	13160
1,80,000 to 1,99,999 Sq. Mtr	13350	14010	13110
Above 200,000 Sq. Mtr	13310	13910	13050

1. मेडिकल डिवाइस पार्क योजना में आवंटन दरें पूर्व में 72वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार रहेंगी।
  2. औद्योगिक एवं वेयर हाउसिंग की दरें एक समान ही होंगी।
  3. वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित दरें प्राधिकरण द्वारा भविष्य में लायी जाने वाली नई योजनाओं पर लागू होंगी।
- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

  
(निजिलिंगप्पा)  
महाप्रबन्धक (वित्त)

- निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का सादर सूचनार्थ।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदय (एम/आर) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- समस्त महाप्रबन्धक/विभागध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति विभाग के समस्त प्रभारी अधिकारी।
- उप महाप्रबन्धक (वित्त)।
- गार्ड फाईल।

  
महाप्रबन्धक (वित्त)